



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.08.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 05/08/2021 को थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार द्वारा गठित व0उ0नि लाखन सिंह के नेतृत्व में टीम ने अभियान में शामिल होकर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 05/21 धारा 147/148/308/323/504/325 भादवि के वांछित 05 नफर अभियुक्तों को कैमाहा बस स्टैण्ड तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तों को मान0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 लाखन सिंह
2. कां0 तेज सिंह
3. का0 अनुज कुमार
4. रि0का0 आदेश शुक्ला

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. हरनारायन उर्फ पप्पू पुत्र बालादीन उम्र 40 वर्ष
 2. मलखान पुत्र रामचरन कुशवाहा उम्र 48 वर्ष
 3. जगदेव पुत्र मलखान कुशवाहा उम्र 23 वर्ष
 4. अभिषेक पुत्र ओमप्रकाश कुशवाहा उम्र 19 वर्ष
 5. कल्लू पुत्र रामचरन कुशवाहा उम्र 36 वर्ष
- समस्त निवासी गण ग्राम इमिलियां थाना श्रीनगर जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.08.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल



दिनांक 04/08/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित / वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा गठित टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 162/2021 धारा 459/323/307 IPC से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रशान्त श्रीवास पुत्र नन्दराम उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ग्राम औडेरा थाना राठ जिला हमीरपुर को कस्बा पनवाड़ी से गिरफ्तार कर जेल भेजा ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

प्रशान्त श्रीवास पुत्र नन्दराम उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ग्राम औडेरा थाना राठ जिला हमीरपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- व.उ.नि. श्री अनुरुद्ध प्रताप सिंह
- 2- का. प्रवीन कुमार
- 3- का. रोहित कुमार



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.08.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने वारन्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल



दिनांक 04/08/2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित / वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा गठित टीम ने **Comp. 545/2018 धारा 498A/323/504/506** भादिवी में वारन्टी अभियुक्त पारस पुत्र घनाराम निवासी लिधौरा खुर्द थाना पनवाड़ी जिला महोबा उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पारस पुत्र घनाराम निवासी लिधौरा खुर्द थाना पनवाड़ी जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1- उप नि. श्री तनवीर अहमद
- 2- का. प्रभात कुमार
- 3- का. ओमप्रकाश शर्मा



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.08.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र की अध्यक्षता चरखारी में आयोजित की गयी पीस कमेटी की बैठक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर आज दिनांक 05.08.2021 को जनपद के थाना चरखारी में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र की अध्यक्षता में व प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में आगामी मोहर्रम त्योहार के दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक आहूत की गयी, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित ताजियादारों से कोरोना गाईड लाईन पालन करते हुए घरों में रहकर मनाने एवं जुलूस नहीं निकालने की अपील की गयी। कर्बला की मिट्टी लाने के लिए सिर्फ तीन ही लोग जाएं और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की अफवाह की सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करें और मुहर्रम पर्व पर शांति और सौहार्द का मिसाल कायम करें, पीस कमेटी की बैठक में उपस्थित ताजियादारो एवं प्रबुद्धजनों से अपील करते हुए कहा कि मुहर्रम त्यौहार को लेकर किसी भी प्रकार से सार्वजनिक तौर पर कहीं भी एकत्रित ना हो व शांतिप्रिय ढंग से त्यौहार को मनाए और किसी भी जाति व धर्म को ठेस न पहुंचे, इस बात का विशेष ख्याल रखें, यदि कोई भी असामाजिक तत्व त्यौहार में कोई भी दखल पैदा करने की

कोशिश करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें जिससे ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर उसके ऊपर कानूनी विधिक कार्रवाई की जाये





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.08.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर ने थाना कोतवाली में तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी एवं आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीम नें शराब के ठेकों में चलाया सघन चेकिंग अभियान...

इत्यादि की जांच में कमियां पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी कड़े निर्देश दिये गये, इसी क्रम में कहा गया कि आगामी त्यौहार में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। शराब के ठेकेदारों व सेल्समैन को शर्तों के अनुरूप कार्य करने की चेतावनी दी गयी।



पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु आज दिनांक 05.08.2021 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र एवं आबकारी निरीक्षक ने थाना कोतवाली चरखारी क्षेत्र में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के साथ ,प्रभारी निरीक्षक खरेला श्री अनूप कुमार दुबे ने मय टीम शराब (देशी, बियर एवं अंग्रेजी) के ठेकों का मय पुलिस फोर्स के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें अभिलेखों का अवलोकन कर नकली शराब की चेकिंग हेतु स्टॉक रजिस्टर का मिलान किया गया जिसके क्रम में शर्तों का उल्लंघन





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 05.08.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



**जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके मुख्य बाजार में की गई
संदिग्धों की चेकिंग**

**यातायात पुलिस द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल पर मोर्डिफाइड सैलेन्सर
लगाकर चलने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई**



आज दिनांक 05.08.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर जनपदीय पुलिस द्वारा पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के मन्दिर/धार्मिक-स्थलों पर पैदल गस्त करके

संदिग्धों की चेकिंग की गई एवं लोगों को संक्रमण से बचने के लिए कोविड-प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई।

यातायात प्रभारी महोबा श्री अरविन्द कुमार मिश्र मय टीम द्वारा शहर में विशेष जागरूकता अभियान चलाकर अभियान के तहत अधिक आवाज करने वाले बुलेट मोटरसाइकिल पर मोर्डिफाइड सैलेन्सर लगाकर चलने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, यातायात नियमों की जानकारी दी गई एवं बिना हेलमेट/तीन सवारी तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर **59 ई-चालान** किये गये व कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **16 व्यक्तियों से 1800/रु0 शमन-शुल्क वसूला गया।**

